

Num

Chapter 17

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וַיִּדְבֹר וַיְהוּה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: 1
और-कहा यहोवा-ने से- मूसा कहते-हुए
[H0559](#) [H4872](#) [H0413](#) [H3068](#) [H1696](#)

यहोवा ने मूसा से कहा,

וַיִּדְבֹר וַיְהוּה אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּקַח מֵאֹתָם מִטָּה לָאִי וְאֶת-כָּל- 2
और-कहा यहोवा-ने से- बेटों इसाएल-के और-ले उनसे और-ले
[H3605](#) [H0854](#) [H0001](#) [H4294](#) [H4294](#) [H0854](#) [H3947](#) [H3478](#) [H0413](#) [H1696](#)

תְּכַתֵּב וְשָׂמוּ אֶת-אִישׁ מִטּוֹת עֶשְׂרִים בָּרַחֲמֵי אֲבוֹתָם לְבֵיתוֹ וְנִשְׂאָהֶם 3
तू-लिखेगा अपना-नाम का- प्रत्येक-पुरुष लाठियाँ दस बारह उनके-पितरों-के प्रति-घराने उनके-प्रधानों
[H3789](#) [H8034](#) [H0853](#) [H0376](#) [H4294](#) [H6240](#) [H8147](#) [H0001](#)

עַל-מִטָּהּ: 4
उसकी-लाठी पर-
[H4294](#)

“इसाएल के लोगों से कहो। अपने लोगों से बारह लकड़ी की छड़ियाँ लें। बारह परिवार समूहों में हर एक के नेता से एक छड़ी लो। हर एक व्यक्ति की छड़ी पर उसका नाम लिख दो।

וְאֵת-וְנָם אֶת־רֹאשׁ בֵּיתוֹ 3
और-को- नाम हासून-का तू-लिखेगा पर-
[H0259](#) [H4294](#) [H3878](#) [H4294](#) [H3789](#) [H0175](#) [H8034](#) [H0853](#)

אֲבוֹתָם: 4
उनके-पितरों-के
[H0001](#)

लेवी की छड़ी पर हासून का नाम लिखो। बारह परिवार समूहों के हर एक मुखिया की छड़ी होनी चाहिए।

וְהִנַּחְתָּם וְהִנַּחְתָּם בְּאֶהָל מוֹעֵד לְפָנָי מוֹעֵד מוֹעֵד לְפָנָי 4
और-रखेगा और-रखेगा में-तंबू में-तंबू के-सामने के-सामने
[H8033](#) [H3259](#) [H5715](#) [H6440](#) [H4150](#) [H0168](#) [H3240](#)

इन छड़ियों को साक्षीपत्र के सन्दूक के सामने मिलापवाले तम्बू में रखो। यही वह स्थान है जहाँ मैं तुमसे मिलता हूँ।

וְהָיָה וְהָיָה הָאִישׁ אֲשֶׁר-אֶבְחַר-בּוֹ מִכֵּי אֲשֶׁר- 5
और-होगा और-होगा वह-पुरुष जिसे चुनूँगा-जिसे
[H0853](#) [H7918](#) [H4294](#) [H0977](#) [H0376](#) [H1961](#)

תְּלַנּוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר- 6
बड़बड़ाहटें बेटों इसाएल-के जो
[H1992](#) [H3478](#) [H8519](#)

मैं एक व्यक्ति को चुनूँगा। तुम जान जाओगे कि किस व्यक्ति को मैंने चुना है। क्योंकि उस छड़ी में नयी पत्तियाँ उगनी आरम्भ होंगी। इस प्रकार, मैं लोगों को अपने और तुम्हारे विरुद्ध सदा शिकायत करने से रोक दूँगा।”

כָּלֵנוּ	אָבְדָנוּ	נָדָעְנוּ	הֵן	לְאֹמַר	מֹשֶׁה	אֶל-	יִשְׂרָאֵל	בָּנֵי	וְאֹמְרוּ	12
हम-सब	नष्ट-हो-गए-हम	मर-गए-हम	देखी	कहते-हुए	मूसा	से-	इस्राएल-के	बेटों-ने	और-कहा	
H3605	H0006	H1478	H2005	H0559	H4872	H0413	H3478		H0559	

אָבְדָנוּ:
नष्ट-हो-गए-हम
[H0006](#)

इस्राएल के लोगों ने मूसा से कहा, “हम जानते हैं कि हम मरेंगे! हमें नष्ट होना ही है! हम सभी को नष्ट होना ही हैं!

תָּמַנּוּ	הֲאֵם	יָמוּת	יְהוָה	מִשְׁכָּן	אֶל-	הַקָּרֵב	הַקָּרֵב	כָּל	13
हम-समाप्त-हो-गए	क्या	मरेगा	यहोवा-के	निवास	के-पास-	जो-निकट-आता-है	जो-निकट-आता-है	सब	
H8552		H4191	H3068	H4908	H0413	H7131	H7131	H3605	

ס
ס
לְיוֹשֵׁעַ:
मरने-को
[H1478](#)

कोई व्यक्ति यहोवा के पवित्र तम्बू के निकट आने पर भी मरेगा। क्या हम सभी मर जाएंगे”